

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 2020—माघ 11, शक 1941

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

नगरीय प्रशासन विकास एवं आवास विभाग

कार्यालय, कलेक्टर (जिला शहरी विकास अभिकरण), बैतूल, मध्यप्रदेश
बैतूल, दिनांक 4 दिसम्बर 2019

क्र. 2019-एसजेएस-1-वार्ड-514.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 03-518-अठारह-3-2004, भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2004 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर, जिला-बैतूल, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29 उपधारा (1) वार्डों की संख्या तथा विस्तार की अवधारण और निर्वाचनों का संचालन के तहत पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए नीचे दी हुई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट नगर परिषदों के संबंध में उक्त अनुसूची के तत्स्थानी कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट वार्डों की संख्या एतद्वारा अवधारित करता हूँ, अर्थात्:—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	नगरपरिषद का नाम (2)	अवधारित वार्डों की संख्या (3)
1	नगरपरिषद शाहपुर, जिला-बैतूल	15 (पन्द्रह)
2	नगरपरिषद घोड़ाडोंगरी, जिला-बैतूल	15 (पन्द्रह)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर.

प्ररूप-तीन (ब)

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

संशोधित अन्तिम प्रकाशन

राजगढ़, दिनांक 22 जनवरी 2020

दिनांक 06 सितम्बर 2019 को राजगढ़ जिले की जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ के निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम प्रकाशन किया जाकर म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन एवं सूचना हेतु वरिष्ठ कार्यालयों को भेजा गया था, जिसमें लिपिकीय त्रुटिवश 24 निर्वाचन क्षेत्रों में से अजजा. प्रवर्ग की महिला हेतु निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 01 के स्थान पर 00 दर्शाई गई है तथा सामान्य महिला संख्या 05 के स्थान पर 06 दर्शाई गई है, जिसमें आंशिक संशोधन किया जाकर अजजा. प्रवर्ग की महिला संख्या 01 एवं सामान्य महिला संख्या 05 करते हुए मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र कमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु पुनः प्रकाशित करती हैं। अर्थात्

सारणी

अनु. कमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के कमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	नरसिंहगढ़	1	नून्याहेडी, धियांखेड़ी, भैसाना, ताजपुरा, कुराड़ियाखेड़ी	अ.जा.	5
2		2	उदपुरिया, कांकरवाल, बैरसिया, नंदगोव, कुदाली, कुंवरकोटरी	अ.ज.जा.	1
3		3	सोनकच्छ, खेड़ी, भवानीपुरा, पलासी, खानपुरा, कड़ियाचन्द्रावत, चांदबड़	अन्य पिछड़ा वर्ग	6
4		4	मनपुरादेव, मुआलियाखेदर, पांजरा, संवासी, पुराबरायठा, रामगढ़	महिला अ.जा.	3
5		5	माना, कांकरियामीना, भोयलीकलां, जामोन्याजौहार, गीलाखेड़ी	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	कोटरा, तिन्दोनिया, बरखेड़ीगढ़ी, विजयगढ़	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	बड़ोदियातालाब, गनियारी, सराना, खजूरिया, बरखेड़ाअमरदास, गोंधीग्राम	महिला सामान्य	5
8		8	मवासा, लसूडल्यापाता, झाड़ला, आँवली, सूकल्या, बरखेड़ाडोर, खलेली		
9		9	आँकखेड़ी, कोड़ियागोड़, मण्डावर, हरलाय, कुकल्याखेड़ी, रनावा		
10		10	उमरिया, पीपल्यारसोड़ा, पान्या, लसूडल्याजागीर, करौंदी		

11	11	परसुखेडी, महुआ, बारबोखुरम, भीलखेडा, रौसला, बमोरासुखा
12	12	घौमा, गिन्दोली, गेहूँखेडी, बोकड़ी, कड़ियासांसी, रलायती, बरेडी
13	13	पाडल्यादान, टिकरिया, अमलार, बावडीखेडा, पीपल्यातवक्कुल
14	14	इकलेरा, बरनावद, बेजड, बड़बेली
15	15	नाहली, सेहतखेडी, जंगीबड, बनापुरा, पटेलपुरा, तुकीपुरा
16	16	सूकली, गागर, उमरी, बूचाखेडी, बमोरी, कांसरोद
17	17	पनवाडी, ढाबला, कण्डाराकोटरी, हूलखेडी, ताजीपुरा, पीपल्याबीरम, मोतीपुरा
18	18	मूण्डलाबारोल, लसूडल्याहाजी, जामोन्यागौपचौहान, जामोन्यागणेश, मानपिछोडी
19	19	साहूखेडी, कोटरीकलं, बिजोरी
20	20	आंदलहेडा, पाडल्याबना, गादिया, चारपुरा, चैनपुराकलां, पीपल्याबाग
21	21	बिरगढी, बोरखेडा, मंग्लादीप, मुगलखेडी, निपानियाचेतन, धनखेडी
22	22	तरेनीधाकड, सांकाजागीर, लशकरपुर, झाडक्या, बिहार
23	23	खेरखेडी, मानपुरागुजराती, पीपलखेडा, पालखेडी, शिवपुरा, पीलूखेडी, बड़नगर, गेहूँखेडीखुर्द
25	24	घाठा, बकानी, झाड़पीपल्या, निपान्यागढी, झागरिया, हिनोत्या

दिनांक 06 सितम्बर 2019 को राजगढ़ जिले की जनपद पंचायत खिलचीपुर के निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम प्रकाशन किया जाकर म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन एवं सूचना हेतु वरिष्ठ कार्यालयों को भेजा गया था, जिसमें लिपिकीय त्रुटिवश 25 निर्वाचन क्षेत्रों में से अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 07 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला 04 दर्शायी गई हैं, जिसमें आंशिक संशोधन किया जाकर अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 06 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग महिला संख्या 03 एवं सामान्य प्रवर्ग की महिला संख्या 07 करते हुए मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 23 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित जनपद पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित निर्वाचन क्षेत्र क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने वर्णित स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु पुनः प्रकाशित करती हूँ। अर्थात्

सारणी

अनु. क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्रों के क्रमांक	निर्वाचन क्षेत्र की सीमा (ग्राम पंचायत के नाम)	आरक्षित विवरण निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खिलचीपुर	1	सेमलीकलां, बावड़ीखेड़ा, सेमला, करकरी	अ.जा.	4
2		2	भोजपुर, चिबड़कलां, चिबड़खुर्द, धामन्या	अ.ज.जा.	1
3		3	ढाबलीकलां, खोखेड़ा, सतनखेड़ी, सेदरा, समेली	अन्य पिछड़ा वर्ग	6
4		4	लिम्बोदा, रूपाहेड़ा, मोकमपुरा, दौलाज	महिला अ.जा.	2
5		5	गादियामेर, दिलावरी, खेड़ी, अमानपुरा, खुरचन्याकलां, गादियाकलां	महिला अ.ज.जा.	1
6		6	छिपीपुरा, बोरकापानी, हरिपुरानजदीक, सेदरी, डालूपुरा, खेरखेड़ा	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
7		7	बघेला, सेमलीकांकड़, अभयपुर, शेरपुरा, पीथापुरा, बड़बेली	महिला सामान्य	7
8		8	हिनोत्या, धामन्याजोगी, मूण्डला, पानखेड़ी, लक्ष्मणपुरा		
9		9	भादाहेड़ी, दूदाहेड़ी, चमारी, लसूडली, करनपुरा		
10		10	देवलीसांगा, सोनखेड़ाकलां, बामनगाँव, जैतपुराखुर्द,		

11		11	गूगाहेड़ा, दरियापुर, गाड़ाहेट, गुनाखेड़ी,		
12		12	पीपल्याकलां, धुआंखेड़ी, चितावलिया		
13		13	नाटाराम, कुआखेड़ा, कछोटिया, देवाखेड़ी		
14		14	ब्यावराकलां, कुलीखेड़ा, हालाहेड़ी, अमावता		
15		15	रामपुरिया, खेरखेड़ी, भूमरिया, बोरदाश्री		
16		16	पपडेल, बादरी, बरखेड़ा, गोपालपुरा, परसपुरा		
17		17	सिंगनपुर, सड़ियाकुआ, बारोल, लालपुरिया, सुआहेड़ी		
18		18	खाजली, दुर्गपुरा, रिछड़िया, दण्ड, डोरियाखेड़ी, भवानीपुरापुस्तदण्ड		
19		19	खाजला, देहरा, कुशलपुरा, पुराखाजला		
20		20	फतेहपुर, रूपारेल, बिसन्या, मेहराजपुरा		
21		21	जैतपुराकलां, जामोन्या, गुजरखेड़ी, बावड़ीखेड़ाजागीर		
22		22	खजूरीगोकुल, खाताखेड़ी, कांकरिया		
23		23	रनारा, जटामढी, बाजरोन		
24		24	भाटखेड़ा, सिकन्दरी, बरखेड़ाभोजा		
25		25	मण्डाखेड़ा, चांदपुरा, रूपपुरा, सेदरासूखा		

निधि निवेदिता, कलेक्टर.